

## सोनाली बोस की कहानी “ हैप्पी न्यू ईयर ”

By : INVC Team Published On : 31 Dec, 2015 05:32 PM IST

### सोनाली बोस की कहानी “ हैप्पी न्यू ईयर ”

#### - हैप्पी न्यू ईयर -

घना कोहरा ,रूहों को जमाने वाली ठण्ड ,शाम से रात के एक बजे तक इंडिया गेट पर जेतू गुब्बारे बेचता रहा ! पूरा इंडिया गेट जश्न के माहौल में मदमस्त था क्योंकि आज न्यू ईयर ईव और उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर जो होने वाला था ! जेतू भाग भाग कर इधर उधर जाकर जिनके हाथों में गुब्बारे नहीं थे उनको गुब्बारे बेचने की कोशिश में लगा था ! जेतू के मन में ठण्ड से ज्यादा एक बात घर किये हुए थी कि आज अगर अच्छी कमाई हो जायेगी तो कल पूरा परिवार भर पेट खा लेगा ! जेतू का नाम जेतू कैसे पड़ा शायद जेतू को भी नहीं पता था ,शायद बचपन से माँ बाप से सुनता आ रहा था अगर, ‘जे तू’ कर लेगा तो तुझे इतने पैसे की कमाई हो जायेगी , अगर ‘जे तू’ कर लेगा तो यह हो जाएगा ,अगर ‘जे तू’ कर लेगा तो वह हो जाएगा ! लेकिन गर्म शानदार कपड़ों में लिपटे बच्चों को देख कर अभी जेतू को कोई विचार नहीं आ रहा था ! शायद उसकी भूख उसके हर विचार पर बहुत ज्यादा हावी थी !

शाम से ठण्ड और सर्द हवाओं ने पूरे दिल्ली शहर में सभी की हालत खराब कर रखी थी ,पर जेतू को शाम से ही गुब्बारे फुलाने का काम उसके बापू ने थमा दिया था ,माँ –बाप के साथ अब जेतू ने भी इंडिया गेट की एक सड़क पर अपना कब्जा जमा रखा था ! शाम से ही पुलिस की सख्ती ने थोड़ा सा मन तो उदास कर दिया था पर अब जेतू पुलिस के साथ डील करना सीख चुका था !

बाप ने इंडिया india गेट का राउंड सर्कल संभाला था तो माँ ने दो साल की अपनी बच्ची के साथ इंडिया गेट पर बने बच्चों के पार्क का एक गेट संभल लिया था ! आज सभी को अच्छी कमाई के आसार नज़र आ रहे थे ! शाम से रात हुई और अब रात से साल की बिदाई का वक्र भी आ गया था ! आज नये साल का जश्न मनाने वाले सभी लोगों ने जेतू की परिवार की कमाई भी खूब करा दी थी ! देर रात तक खूब हंगामा हुआ ,फिर पुलिस की कार्यवाही के बाद सभी को इंडिया गेट खाली करना ही पड़ा !

पुलिसिया हिस्सेदारी के बाद भी जेतू के परिवार की कमाई खूब हुई थी ! पूरा परिवार खुश था, जेतू ने अपनी जेब से एक चाँकलेट निकाल कर अपनी बहन को दिया और कहा “ हैप्पी न्यू ईयर ” छोटी से बच्ची ने चाँकलेट को हाथ में लेते हुये जेतू की तरफ ऐसे देखा जैसे इसका मतलब जानना चाह रही हो ! जेतू ने अपनी छोटी सी बहन के पास आकर धीरे से कहा,“ जब बड़े लोग कानून सरे –आम तोड़ते हैं ,खूब सारा पैसा बर्बाद करते हैं ,शराब पीकर जश्न के नाम पर गरीब लोगों का और उनकी गरीबी का जम कर मज़ाक उड़ाते हैं , देर रात तक अमीर लोग सड़कों, होटलों , पार्कों और मुझे नहीं पता कहाँ – कहाँ जाकर फ़िज़ूल खर्ची और मौज मस्ती करते तो उसे कहते हैं “ हैप्पी न्यू ईयर ” !

#### सोनाली बोस उप – सम्पादक इंटरनेशनल न्यूज़ एंड वियुज़ डॉट कॉम व् अंतरराष्ट्रीय समाचार एवम विचार

निगम

**Sonali Bose** Sub - Editor international News and Views.Com & International News and Views Corporation संपर्क - : sonali@invc.info & sonalibose09@gmail.com

---

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/happy-new-year-a-story-by-sonali-bose/>

---



12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.

---